

प्रेस-नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 20.01.2023

त्रिनेत्र कैमरे/आई.टी.एम.एस. की मदद से मिला पीड़ित/गरीब का खोया हुआ पैसा
व सामान ।

एडीजी जोन गोरखपुर महोदय द्वारा चौकी प्रभारी बसन्तपुर थाना राजघाट गोरखपुर को उक्त सराहनीय
कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम के साथ साथ फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुमशूदगी सम्बन्धी सूचनाओं पर संवेदनशील होकर माननीय दृष्टिकोण एवं निःस्वार्थ भाव से प्रेरित होकर त्वरित कार्यवाही करने हेतु सर्व सम्बन्धित को समय-समय पर निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के लगातार पुलिस की छवि सुधारने एवं अच्छे कार्यों के प्रति पुलिस बल को प्रोत्साहित करने तथा मानवता से फलीभूत होकर कार्य करने की दिशा में प्रेरित करने के फलस्वरूप कल दिनांक 19.01.2023 को राजघाट पुलिस को एक पीड़ित एवं गरीब व्यक्ति के खोये हुए करीब 1,45,000/- बरामद कर लौटाने में सफलता प्राप्त हुयी है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – कल दिनांक 19.01.2023 को श्री अरविन्द गुप्ता पुत्र भरत प्रसाद निवासी सिवान (बिहार) अपने बेटे के ईलाज हेतु गोरखपुर आये थे जो कि गोलघर थानाक्षेत्र कैण्ट से ऑटो में बैठकर घण्टाघर बसन्तपुर थाना क्षेत्र राजघाट पर उतरे । बीमार बेटे की देखरेख के चलते आनन-फानन में साथ लाया गया बैग जिसमें 1,45,000/- नगद एवं कुछ कागजात तथा कपड़े इत्यादि ऑटो में ही छूट गये थे । घटना दोपहर करीब 11.30 बजे की है इनके द्वारा जानकारी होने पर शाम करीब 05.00 बजे चौकी बसन्तपुर पर चौकी प्रभारी डॉ०आशीष तिवारी को शायं गश्त के दौरान पैसे/बैग गुम होने की सूचना रोते-बिलखते हुए दी गयी । चौकी प्रभारी बसन्तपुर द्वारा तत्काल पीड़ित अरविन्द गुप्ता उपरोक्त को सांत्वना देते हुए हमराही फोर्स की मदद से त्वरित कार्यवाही करते हुए त्रिनेत्र कैमरे/आई.टी.एम.एस. के माध्यम से सम्बन्धित ऑटो की जानकारी प्राप्त करते हुए मात्र 01.30 घण्टे के अन्दर खोया हुआ 1,45,000/- नगद, बैग व अन्य सामान सहित बरामद करते हुए पीड़ित व्यक्ति उपरोक्त को सकुशल लौटाया गया । पीड़ित व्यक्ति उपरोक्त द्वारा गोरखपुर पुलिस को हृदय से धन्यवाद दिया गया है ।

बरामद सामान का विवरण-

- 1- एक लाख पैंतालिस हजार रुपया नगद ।
- 2- ईलाज सम्बन्धी व अन्य जरूरी कागजात ।
- 3- बैग व कपड़े इत्यादि ।